



GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

| | |
|------------------|------------------------|
| Participant ID | 11210501254 |
| Participant Name | Krishan Kant Sagar |
| Test Center Name | Vinayak Global Academy |
| Test Date | 30/10/2019 |
| Test Time | 4:30 PM - 6:30 PM |
| Subject | JUNIOR ENGINEER CIVIL |

Section : Mental Ability

Q.1 Choose the odd one from the given alternatives.

- Ans
- 1. UX : SZ
 - 2. PS : NU
 - 3. HK : FM
 - 4. QT : NV

Question ID : 54592769290

Q.2 Find the wrong term in the series?

P, M, O, L, R, K

- Ans
- 1. R
 - 2. Q
 - 3. P
 - 4. O

Question ID : 54592769288

Q.3 Select the term that will come next in the following series.

FHE, KMJ, PRO, UWT,?

- Ans
- 1. ZBY
 - 2. ZCB
 - 3. ZAB
 - 4. ZBA

Question ID : 54592769287

Q.4 एक जन्मदिन की पार्टी में एक बॉक्स के अंदर 84 चॉकलेट थे। बच्चे ने इसमें से 24 ले लिए लेकिन 22 को बॉक्स में डाल दिया। फिर उसने 27 निकाले लेकिन 19 को वापस बॉक्स में डाल दिया। अंत में, उसने बॉक्स से 15 चॉकलेट निकाली। तो, बॉक्स के अंदर कितने चॉकलेट हैं?

- Ans
- 1. 48
 - 2. 63
 - 3. 55
 - 4. 59

Question ID : 54592769295

Q.5 अक्षरों का एक समूह दिया गया है, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नीचे दिए गए हैं, इन संख्याओं के संयोजन वाले चार विकल्प दिए गए हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें ताकि अक्षरों के अनुसार व्यवस्थित हो,


एक सार्थक शब्द बनाएं।

NTAODRO
1 2 3 4 5 6 7

- Ans 1. 2461357
 2. 2736154
 3. 2753164
 4. 2463517

Question ID : 54592769293

Q.6 In the following diagram, which of the following group of employees represents those employees, who are not businessmen.



- Ans 1. e, g, h
 2. a, g, h
 3. a, e, g, h
 4. b, e, g

Question ID : 54592769301

Q.7 Which one of the following figures represents the relationship among TV, Radio, and Cinema hall?


Ans

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.




Question ID : 54592769300

Q.8 Find the missing figure in the series from the given option figures.

Question figure:



Ans



Question ID : 54592769304

Q.9 There are five friends. They are standing in row facing south. Komal is to the immediate right to Akanksha. Satvik is between Sandeep and Jay. Jay is between Komal and Satvik. Who among the following is third to the left of Satvik?

- Ans ✓ 1. Akanksha
✗ 2. Komal
3. Sandeep
4. Jay

Question ID : 54592769294

Q.10 Select the related letter group from the given alternatives.

EV : IZ :: GT : ?

- Ans 1. KQ
2. IU
3. KX
4. LW

Question ID : 54592769291

Q.11 Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term.

267 : 5 :: 549 : ?

- Ans 1. 13
2. 14
3. 11
4. 9

Question ID : 54592769299

Q.12 A statement is given followed by four assumptions, (a), (b), (c) and (d). You have to consider the statement to be true, even if it seems to be variance from commonly known facts. You are to decide which of the given assumptions can definitely be drawn from the given statement. Indicate your answer.

Statement:

Television has a strong influence in the young children's development.

- Ans 1. While developing TV programmes, educational, developmental and moral aspects of children should be take care of
2. Television affects the academic progress of your children

3. Children watching TV should be controlled by the parents
4. Young Children should not allowed to watch TV programmes

Question ID : 54592769297

Q.13 शब्दों की चार जोड़ियाँ दी गयी हैं और उनमें से तीन एक निश्चित समानता साझा करते हैं। उस जोड़ी को चुनें जो अन्य तीन से अलग हो।

- Ans
1. क्रिकेट : गूगली
 2. शूटिंग : बैक स्ट्रोक
 3. टेनिस : स्मैश
 4. हॉकी : छोटा कर्नर

Question ID : 54592769289

Q.14 प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।

मुसलमान : कुरान :: यहूदी : ?

- Ans
1. टोरा
 2. रामायण
 3. तल्मूड
 4. गुरु ग्रंथ साहिब

Question ID : 54592769292

Q.15 One of the four figures (a), (b), (c) and (d) does not fit into the series. Find out the figure.

- Ans
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : 54592769302

Q.16 Which two signs need to be interchanged to make the given equation correct?

$$88 \div 11 + 52 \times 15 = 4$$

- Ans
1. \div and $-$
 2. \times and $=$
 3. $+$ and \div
 4. \times and $-$

Question ID : 54592769298

Q.17 Select a suitable figure from the four alternatives that would complete the figure matrix.

- Ans
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : 54592769303

Q.18 In the question below, there are three statements followed by two conclusions. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts and then decide which of the given conclusion logically follow(s) from the given statements.

Statements:

- I. Some shockers are mockers.
- II. All hockers are mockers.
- III. Some mockers are dockers.

Conclusion:

- I. Some shockers are hockers.
- II. Some dockers are mockers.

- Ans
- 1. Neither conclusion I nor II follows
 - 2. Only conclusion I follow
 - 3. Only conclusion II follows
 - 4. Either conclusion I or II follows

Question ID : 54592769296

Q.19 Find out which of the figure (a), (b), (c), (d) can be formed from the pieces given in fig. (X).

- Ans
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : 54592769306

Q.20 Choose the alternative which is closely resembles the water-image of the given combination.

- Ans
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : 54592769305

Section : General Awareness

Q.1 'Burrakatha' is regional music of which of the following Indian States?

- Ans
- 1. Odisha
 - 2. Andhra Pradesh
 - 3. Tamil Nadu
 - 4. Kerala

Question ID : 54592769308

Q.2 संविधान (इक्कीसवा संशोधन) अधिनियम, 1967 क्या था?

- Ans
- 1. अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन
 - 2. कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करना
 - 3. भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन
 - 4. सिंधी भाषा आधिकारिक भाषा रूप में शामिल करना

Question ID : 54592769324

Q.3 किस राष्ट्रीय आंदोलन को वन्देमातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है?

- Ans
- 1. असहयोग आंदोलन
 - 2. होम रूल आंदोलन
 - 3. स्वदेशी आंदोलन

4. चंपारण सत्याग्रह

Question ID : 54592769317

Q.4 बछेंद्री पाल को 2019 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला?

- Ans
1. अर्जुन पुरस्कार
 2. पद्म विभूषण
 3. पद्म भूषण
 4. पद्मश्री

Question ID : 54592769325

Q.5 Which of the following is a type of protecting tissue in an animal body?

- Ans
1. Nervous tissue
 2. Muscular tissue
 3. Connective tissue
 4. Epithelial tissues

Question ID : 54592769311

Q.6 अशोक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक थे?

- Ans
1. मौर्य वंश
 2. चालुक्य वंश
 3. कुषाण वंश
 4. गुप्त वंश

Question ID : 54592769316

Q.7 Yamini Krishnamurthy is associated with which of the following fields?

- Ans
1. Classical Dance
 2. Politics
 3. Science
 4. Sports

Question ID : 54592769319

Q.8 When was Namami Gange Programme approved?

- Ans
1. October 2017
 2. June 2014
 3. August 2012
 4. January 2013

Question ID : 54592769313

Q.9 1722 में अवध के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?

- Ans
1. आसफ जाह
 2. सादत खान
 3. फारुख सियार
 4. मुर्शिद कुली खान

Question ID : 54592769318

Q.10 भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है?

Ans

1. अनुच्छेद 26
2. अनुच्छेद 22
3. अनुच्छेद 21 A
4. अनुच्छेद 24

Question ID : 54592769323

Q.11 स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है?

- Ans**
1. 9000 कि.मी.
 2. 10,000 कि.मी.
 3. 7000 कि.मी.
 4. 5000 कि.मी.

Question ID : 54592769314

Q.12 बहाई मंदिर कहाँ स्थित है?

- Ans**
1. चेन्नई
 2. कोलकाता
 3. नई दिल्ली
 4. मुंबई

Question ID : 54592769307

Q.13 Which color is observed when presence of protein in a food item is tested using copper sulphate and caustic soda?

- Ans**
1. Pink
 2. Brown
 3. Violet
 4. Green

Question ID : 54592769312

Q.14 Who is the present Chief Minister of Goa?

- Ans**
1. Manohar Parrikar
 2. Digambar Kamat
 3. Pramod Sawant
 4. Laxmikant Parsekar

Question ID : 54592769322

Q.15 Which water highway is present between Sadiya and Dhubri?

- Ans**
1. NW-3
 2. NW-2
 3. NW-4
 4. NW-1

Question ID : 54592769315

Q.16 Bhaichung Bhutia is associated with which of the following sport?

- Ans**
1. Football
 2. Basketball
 3. Hockey
 4. Cricket

Question ID : 54592769326

Q.17 The National song of India, 'Vande Matram' has been taken from which book?

- Ans**
1. Neel darpan
 2. Bankim Rachnavali
 3. Anand Math
 4. Rajani

Question ID : 54592769320

Q.18 Where is the RBI museum situated in India?

- Ans**
1. Delhi
 2. Bhubaneswar
 3. Bhopal
 4. Kolkata

Question ID : 54592769309

Q.19 In which year was the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY) launched?

- Ans**
1. 1999
 2. 2004
 3. 2002
 4. 2000

Question ID : 54592769310

Q.20 Who among the following did not receive the Bharat Ratna Award 2019?

- Ans**
1. Shri Nanaji Deshmukh
 2. Dr. Bhupen Hazarika
 3. Shri Anilkumar Manibhai Naik
 4. Shri Pranab Mukherjee

Question ID : 54592769321

Section : Arithmetic Ability

Q.1 Study the following table carefully and answer the given question.

Based on the given Table, Percentage salary increase during the period 2008 -2010 is:

- Ans**
1. 30 percent
 2. 25 percent
 - 3.
 - 4.

Question ID : 54592769344

Q.2 Simplify the following expression.

- Ans**
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : 54592769327

Q.3 What should come in place of the question mark (?) in the following question?

- Ans**
1. 1682
 2. 1865
 3. 1576
 4. 1702

Question ID : 54592769328

Q.4 A gives 39 percent of his salary to B. From this amount, B spends 19 percent on his food items and 15 percent on repair of furniture and the remaining Rs. 21879 puts in the saving account. What is the half of the salary of A?

- Ans**
1. Rs 42500
 2. Rs 64000
 3. Rs 84000
 4. Rs 41500

Question ID : 54592769334

Q.5 Given below is a bar graph, showing the percentage profit of company A from 2010 to 2014. Study the graph carefully and answer the question.

If the investment of company A in each year was Rs. 2.4 crore, find the average profit per year for the company for the given period.

- Ans**
1. 0.5 Crore
 2. 1.176 crore
 3. 0.49 crore
 4. 1.165 crore

Question ID : 54592769346

Q.6 A sum of money in 3 years becomes Rs.1344 and in 7 years it becomes Rs.1536. What is the principle when simple rate of interest is to be charged?(in Rs.)

- Ans**
1. 1800
 2. 1200
 3. 1500
 4. 1000

Question ID : 54592769338

Q.7 The price of an article becomes Rs. 63 after a decrease of 30 percent. Find the original price. (in Rs.)

- Ans**
1. 90
 2. 100
 3. 96
 4. 80

Question ID : 54592769333

Q.8 A discount of 5.5 percent is given to the customer on marked price of an article. A man bought the article for Rs. 141.75. The marked price of article is:

- Ans**
1. Rs 148
 2. Rs 146
 3. Rs 150

4. Rs 145

Question ID : 54592769330

Q.9 38514 is completely divisible by which of the following?

- Ans
1. 14 and 21 both
 2. 21
 3. 14
 4. 12

Question ID : 54592769329

Q.10 If $(p + q) : (q + r) : (r + p) = 5 : 6 : 7$ and $p + q + r = 18$, find the value of $p : q : r$.

- Ans
1. 9 : 6 : 12
 2. 5 : 6 : 7
 3. 4 : 5 : 6
 4. 2 : 3 : 4

Question ID : 54592769336

Q.11 A train, running at a speed of 36 kmph, takes 60 seconds to cross an electric pole. How much time it will take to cross a platform of length 250 meter?

- Ans
1. 80 second
 2. 10 second
 3. 75 second
 4. 85 second

Question ID : 54592769340

Q.12 Two pipes A and B can fill a cistern in 6 and 8 minutes respectively. If A starts the work and they be turned on alternatively for one minute each, how long will it take to fill the cistern?

- Ans
- 1.
 - 2.
 - 3.
 4. 6 minutes

Question ID : 54592769342

Q.13 संख्याओं की एक जोड़ी में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है जो 4 : 5 के अनुपात में है। परिणामी संख्याओं का योग 39 है और उनका अनुपात (उसी क्रम में लिया गया है जैसा ऊपर वर्णित है) 6 : 7 है। जोड़ी गयी संख्या क्या है?

- Ans
1. 7
 2. 9
 3. 8
 4. 6

Question ID : 54592769337

Q.14 A man buys an article for 10 percent less than its value and sells it for 10 percent more than its value. His profit or loss percent is:

- Ans
1. 22.2 percent
 2. 21 percent
 3. 1 percent
 4. 20 percent

Q.15 In the equilateral ΔABC , the base BC is trisected at D and E . The line through D , Parallel to AB , meets AC at F and the line through E parallel to AC meets AB at G . If EG and DF intersect at H , then what is the ratio of the sum of the area of parallelogram $AGHF$ and the area of the ΔDHE to the area of the ΔABC ?

- Ans**
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Q.16 Study the following graph carefully and answer the question that follow.

Demand and Production of Cars in different Companies in a year

What is the ratio of the companies having more demand than production to those having more production than demand?

- Ans**
1. 2 : 1
 2. 2 : 3
 3. 1 : 4
 4. 1 : 3

Q.17 10 years ago the average age of all the 25 teachers of the Girls College was 45 years. 4 years ago, the Principal retired at the age of 60 years and after one year, a new Principal, whose age was 54 years, was recruited. What is the present average age of all the teachers if the Principal is also considered as a teacher?

- Ans**
- 1.
 - 2.
 3. 56 years
 4. 55 years

Q.18 Two trains of lengths 80 m and 100 m are moving in the same direction with their speeds in the ratio of 3 : 2 respectively. If they cross a 20 m long bridge, then find the ratio of the time taken by first train to the time taken by second train to cross the bridge?

- Ans**
1. 9 : 5
 2. 6 : 5
 3. 5 : 9
 4. 5 : 6

Q.19 A is thrice as good a workman as B. C alone takes 48 days to paint a house. All three A, B and C working together take 16 days to paint the house. It will take how many days for A alone to paint the house?

- Ans**
1. 64
 2. 72
 3. 32
 4. 96

Q.20 The average age of 25 students and the principal is 15 years. When the principal's age is

excluded, the average age decreases by 1 year. What is the age of principal?

- Ans
1. 40 years
 2. 38 years
 3. 39 years
 4. Data inadequate

Question ID : 54592769331

Section : General English

Q.1 In the following question, there are six parts marked S1, S6, P, Q, R and S. The position of S1 and S6 are fixed. Some parts of the sentence have been jumbled up. Rearrange these parts and choose the proper sequence from the given options.

S1. Old age are two words that people are scared to utter, let alone living it.

P. But, this couldn't be farther from the truth in today's time.

Q. Its perception is such that it worries people.

R. Recently, 71-year-old Sarah Simpsons was seen cycling in a resort in Goa where she was holidaying.

S. Greying hair is equated to slowing down.

S6. Whether it is true or not, one could gauge her fitness levels by watching her being at ease on the bicycle.

- Ans
1. RPQS
 2. RPSQ
 3. QSRP
 4. QSPR

Question ID : 54592769354

Q.2 Find the correctly spelt word.

- Ans
1. Millenium
 2. Millennium
 3. Mellinium
 4. Mellinneium

Question ID : 54592769358

Q.3 Out of the four words given below, find the word which is not correctly spelt?

- Ans
1. Believe
 2. Occassion
 3. Guarantee
 4. Occurrence

Question ID : 54592769357

Q.4 Select the most appropriate option to fill in the blank.

The few articles of furniture _____ a narrow bed, a chair, and a desk in one corner.

- Ans
1. consisting
 2. including
 3. consists
 4. included

Question ID : 54592769352

Q.5 Select the word which means the same as the group of words given.

One who specialises in the treatment of babies and children.

- Ans
1. Oncologist
 2. Paediatrician
 3. Gynaecologist
 4. Podiatrist

Question ID : 54592769361

Q.6 Out of the four sentences given below, which is the correct indirect speech of the sentence?

“Please give me something to eat. I am hungry” the old man said to them.

- Ans
1. The old man commanded them to give him something to eat and said that they were hungry.
 2. The old man threatened them to give him something to eat and said that he was hungry.
 3. The old man ordered them to give him something to eat and said that they were hungry.
 4. The old man requested them to give him something to eat and said that he was hungry.

Question ID : 54592769348

Q.7 Four alternatives are given for the Idiom/Phrase underlined. Choose the alternative which best expresses the meaning of Idiom/Phrase.

In spite of the manager's persistent efforts to reconcile the existing situation, all he received was a cold shoulder from the management's side.

- Ans
1. firmly acknowledge
 2. pay no attention to
 3. be resistant to
 4. a warm welcome

Question ID : 54592769359

Q.8 Select the synonym of the given word.

Assured

- Ans
1. Confidant
 2. Guaranteed
 3. Involved
 4. Provoked

Question ID : 54592769356

Q.9 Four alternatives are given for the Idiom/Phrase underlined. Choose the alternative which best expresses the meaning of Idiom/Phrase.

Despite working very hard, Edward remained a cog in the wheel and his absence from the crucial group project didn't have much impact on the team.

- Ans
1. functionally necessary but of small significance
 2. to be a liability
 3. to shirk work & responsibility
 4. holding an important job title

Question ID : 54592769360

Q.10 Select the antonym of the given word.

Dismal

- Ans
1. Modern
 2. Pleasant
 3. Random

4. Erratic

Question ID : 54592769355

Q.11 Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, No substitution required.

Not knowing the language and having no acquaintances in the city, he found it hard getting work.

- Ans
1. No substitution required
 2. hard in getting work.
 3. hard to get work.
 4. hard to getting to work.

Question ID : 54592769349

Q.12 Identify the incorrect sentence or sentences.

- a. Leadership is primarily about being people-centric.
- b. It's about treating people as equals and with respect.
- c. It's equally important to find balance between delegation and abdication.
- d. Mentoring and coaching should be done not by sermons but working in real situations.

- Ans
1. c and d
 2. a and b
 3. Only d
 4. Only a

Question ID : 54592769347

Q.13 Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence.

Bindu is strongly desiring to buy a car, so that she can travel fast and reach the office in time.

- Ans
1. desired strongly
 2. is desiring strongly
 3. was strongly desiring
 4. strongly desires

Question ID : 54592769350

Q.14 Rearrange the following sentence in their correct order to form a meaningful paragraph.

Their nurses fed them
P - between meals, and at all times
Q - so they grew ever so much faster
R - than most babies do

- Ans
1. RQP
 2. PQR
 3. QRP
 4. PRQ

Question ID : 54592769353

Q.15 Select the most appropriate option to fill in the blank.

She's not speaking to him and he's not talking to her and _____ haven't spoken for years.

- Ans
1. she
 2. it
 3. they
 4. he

Comprehension:

Read the following passage carefully and answer the following questions.

Air pollution has jumped to number five spot amongst the top killers in India. Releasing India-specific data, the Global Burden of Disease (GBD) warned that outdoor air pollution caused 6,27,000 deaths and 17.7 million healthy years of life in 2010.

Worldwide, outdoor air pollution caused 3.2 million premature deaths and over 74 million years of healthy life in 2010. A substantial rise in cardiovascular diseases, strokes and chronic obstructive pulmonary diseases in India in 2010 are directly attributed to the rising levels of particulate-matter pollution. Two-thirds of the rising disease graphs worldwide are found in South Asia.

Dr Vinod Raina, heading the oncology wing at AIIMS, confirmed that 'we are getting 10 lakh new cancer cases every year, out of which approximately one lakh are lung cancer cases. We still have to quantify how many of these lung cancer cases are pollution-related'.

Dr Aaron Cohen, principal scientist, Health Effects Institute, Boston, and chairperson of the 4Jr Pollution Group at Institute for Health Metrics and Evaluation for Global Burden of Disease, pointed out that a study of lung cancer amongst non-smokers had shown a 60 per cent increase caused by air pollution.

Prof. S K Chhabra, heading the department of cardiorespiratory physiology at the Vallabhbhai Patel Chest Institute, warned against the risk from new generation pollutants, especially ozone that is currently responsible for a four per cent increase in mortality rates. 'Ozone has become a key ingredient of urban smog,' said Prof. Chhabra.

Prof. Randeep Guleria, head of the pulmonary unit at AIIMS, highlighted how indoor air pollution had emerged as another major killer amongst women using biomass for their cooking requirements. 'Women in the Gujjar community suffer high incidence of, cancer caused by indoor air pollution,' Prof. Guleria explained.

Allergies, respiratory diseases, bronchitis, asthma, etc. were all caused by air pollution. The harmful fumes from vehicles are a major cause of air pollution.

The India-related data was calculated from the largest global database ever assembled using India-specific levels of baseline mortality and incidence of five leading causes of death in India and was released at a workshop organised by ICMR and CSE.

The 2010, GBD was produced by a rigorous scientific process involving 150 global experts led by the Institute of Health Metrics and Evaluation along with WHO and Harvard University.

SubQuestion No : 16

Q.16 Which of the following sentence/s is true about women in the Gujjar community?

- A. They use biomass for cooking.**
- B. They are highly prone to cancer because of indoor air pollution.**
- C. They are concerned about the pollution caused by biomass.**

- Ans**
1. Only A
 2. Only C
 3. Only A and B
 4. Only B

Comprehension:

Read the following passage carefully and answer the following questions.

Air pollution has jumped to number five spot amongst the top killers in India. Releasing India-specific data, the Global Burden of Disease (GBD) warned that outdoor air pollution caused 6,27,000 deaths and 17.7 million healthy years of life in 2010.

Worldwide, outdoor air pollution caused 3.2 million premature deaths and over 74 million years of healthy life in 2010. A substantial rise in cardiovascular diseases, strokes and chronic obstructive pulmonary diseases in India in 2010 are directly attributed to the rising levels of particulate-matter pollution. Two-thirds of the rising disease graphs worldwide are found in South Asia.

Dr Vinod Raina, heading the oncology wing at AIIMS, confirmed that 'we are getting 10 lakh new cancer cases every year, out of which approximately one lakh are lung cancer cases. We still have to quantify how many of these lung cancer cases are pollution-related'.

Dr Aaron Cohen, principal scientist, Health Effects Institute, Boston, and chairperson of the 4Jr Pollution Group at Institute for Health Metrics and Evaluation for Global Burden of Disease, pointed out that a study of lung cancer amongst non-smokers had shown a 60 per

cent increase caused by air pollution.

Prof. S K Chhabra, heading the department of cardiorespiratory physiology at the Vallabhbhai Patel Chest Institute, warned against the risk from new generation pollutants, especially ozone that is currently responsible for a four per cent increase in mortality rates. 'Ozone has become a key ingredient of urban smog,' said Prof. Chhabra.

Prof. Randeep Guleria, head of the pulmonary unit at AIIMS, highlighted how indoor air pollution had emerged as another major killer amongst women using biomass for their cooking requirements. 'Women in the Gujjar community suffer high incidence of, cancer caused by indoor air pollution,' Prof. Guleria explained.

Allergies, respiratory diseases, bronchitis, asthma, etc. were all caused by air pollution. The harmful fumes from vehicles are a major cause of air pollution.

The India-related data was calculated from the largest global database ever assembled using India-specific levels of baseline mortality and incidence of five leading causes of death in India and was released at a workshop organised by ICMR and CSE.

The 2010, GBD was produced by a rigorous scientific process involving 150 global experts led by the Institute of Health Metrics and Evaluation along with WHO and Harvard University.

SubQuestion No : 17

Q.17 The Global Burden of Disease warned that:

- Ans**
1. People had increased the use of fossil fuels
 2. Healthy people had become unhealthy
 3. Obesity was a killer
 4. Many healthy years of life were lost due to air pollution

Question ID : 54592769364

Comprehension:

Read the following passage carefully and answer the following questions.

Air pollution has jumped to number five spot amongst the top killers in India. Releasing India-specific data, the Global Burden of Disease (GBD) warned that outdoor air pollution caused 6,27,000 deaths and 17.7 million healthy years of life in 2010.

Worldwide, outdoor air pollution caused 3.2 million premature deaths and over 74 million years of healthy life in 2010. A substantial rise in cardiovascular diseases, strokes and chronic obstructive pulmonary diseases in India in 2010 are directly attributed to the rising levels of particulate-matter pollution. Two-thirds of the rising disease graphs worldwide are found in South Asia.

Dr Vinod Raina, heading the oncology wing at AIIMS, confirmed that 'we are getting 10 lakh new cancer cases every year, out of which approximately one lakh are lung cancer cases. We still have to quantify how many of these lung cancer cases are pollution-related'.

Dr Aaron Cohen, principal scientist, Health Effects Institute, Boston, and chairperson of the 4Jr Pollution Group at Institute for Health Metrics and Evaluation for Global Burden of Disease, pointed out that a study of lung cancer amongst non-smokers had shown a 60 per cent increase caused by air pollution.

Prof. S K Chhabra, heading the department of cardiorespiratory physiology at the Vallabhbhai Patel Chest Institute, warned against the risk from new generation pollutants, especially ozone that is currently responsible for a four per cent increase in mortality rates. 'Ozone has become a key ingredient of urban smog,' said Prof. Chhabra.

Prof. Randeep Guleria, head of the pulmonary unit at AIIMS, highlighted how indoor air pollution had emerged as another major killer amongst women using biomass for their cooking requirements. 'Women in the Gujjar community suffer high incidence of, cancer caused by indoor air pollution,' Prof. Guleria explained.

Allergies, respiratory diseases, bronchitis, asthma, etc. were all caused by air pollution. The harmful fumes from vehicles are a major cause of air pollution.

The India-related data was calculated from the largest global database ever assembled using India-specific levels of baseline mortality and incidence of five leading causes of death in India and was released at a workshop organised by ICMR and CSE.

The 2010, GBD was produced by a rigorous scientific process involving 150 global experts led by the Institute of Health Metrics and Evaluation along with WHO and Harvard University.

SubQuestion No : 18

Q.18 Why is ozone a dangerous new-generation pollutant?

- A. It is a major constituent of urban smog.
- B. It is responsible for a four per cent increase in mortality rates.
- C. It is highly toxic.

Ans 1. Only A and B

2. Only C

3. Only A

4. Only B

Question ID : 54592769363

Comprehension:

Read the following passage carefully and answer the following questions.

Air pollution has jumped to number five spot amongst the top killers in India. Releasing India-specific data, the Global Burden of Disease (GBD) warned that outdoor air pollution caused 6,27,000 deaths and 17.7 million healthy years of life in 2010.

Worldwide, outdoor air pollution caused 3.2 million premature deaths and over 74 million years of healthy life in 2010. A substantial rise in cardiovascular diseases, strokes and chronic obstructive pulmonary diseases in India in 2010 are directly attributed to the rising levels of particulate-matter pollution. Two-thirds of the rising disease graphs worldwide are found in South Asia.

Dr Vinod Raina, heading the oncology wing at AIIMS, confirmed that 'we are getting 10 lakh new cancer cases every year, out of which approximately one lakh are lung cancer cases. We still have to quantify how many of these lung cancer cases are pollution-related'.

Dr Aaron Cohen, principal scientist, Health Effects Institute, Boston, and chairperson of the 4Jr Pollution Group at Institute for Health Metrics and Evaluation for Global Burden of Disease, pointed out that a study of lung cancer amongst non-smokers had shown a 60 per cent increase caused by air pollution.

Prof. S K Chhabra, heading the department of cardiorespiratory physiology at the Vallabhbhai Patel Chest Institute, warned against the risk from new generation pollutants, especially ozone that is currently responsible for a four per cent increase in mortality rates. 'Ozone has become a key ingredient of urban smog,' said Prof. Chhabra.

Prof. Randeep Guleria, head of the pulmonary unit at AIIMS, highlighted how indoor air pollution had emerged as another major killer amongst women using biomass for their cooking requirements. 'Women in the Gujjar community suffer high incidence of, cancer caused by indoor air pollution,' Prof. Guleria explained.

Allergies, respiratory diseases, bronchitis, asthma, etc. were all caused by air pollution. The harmful fumes from vehicles are a major cause of air pollution.

The India-related data was calculated from the largest global database ever assembled using India-specific levels of baseline mortality and incidence of five leading causes of death in India and was released at a workshop organised by ICMR and CSE.

The 2010, GBD was produced by a rigorous scientific process involving 150 global experts led by the Institute of Health Metrics and Evaluation along with WHO and Harvard University.

SubQuestion No : 19

Q.19 What are the consequences of rising levels of particulate matter pollution?

A. Rise In cardiovascular diseases

B. Rise in strokes

C. Rise in obesity

Ans 1. Only B

2. Only A

3. Only A and B

4. Only C

Question ID : 54592769365

Comprehension:

Read the following passage carefully and answer the following questions.

Air pollution has jumped to number five spot amongst the top killers in India. Releasing India-specific data, the Global Burden of Disease (GBD) warned that outdoor air pollution caused 6,27,000 deaths and 17.7 million healthy years of life in 2010.

Worldwide, outdoor air pollution caused 3.2 million premature deaths and over 74 million years of healthy life in 2010. A substantial rise in cardiovascular diseases, strokes and chronic obstructive pulmonary diseases in India in 2010 are directly attributed to the rising levels of particulate-matter pollution. Two-thirds of the rising disease graphs worldwide are found in South Asia.

Dr Vinod Raina, heading the oncology wing at AIIMS, confirmed that 'we are getting 10 lakh new cancer cases every year, out of which approximately one lakh are lung cancer cases. We still have to quantify how many of these lung cancer cases are pollution-related'.

Dr Aaron Cohen, principal scientist, Health Effects Institute, Boston, and chairperson of the 4Jr Pollution Group at Institute for Health Metrics and Evaluation for Global Burden of Disease, pointed out that a study of lung cancer amongst non-smokers had shown a 60 per cent increase caused by air pollution.

Prof. S K Chhabra, heading the department of cardiorespiratory physiology at the Vallabhbai Patel Chest Institute, warned against the risk from new generation pollutants, especially ozone that is currently responsible for a four per cent increase in mortality rates. 'Ozone has become a key ingredient of urban smog,' said Prof. Chhabra.

Prof. Randeep Guleria, head of the pulmonary unit at AIIMS, highlighted how indoor air pollution had emerged as another major killer amongst women using biomass for their cooking requirements. 'Women in the Gujjar community suffer high incidence of, cancer caused by indoor air pollution,' Prof. Guleria explained.

Allergies, respiratory diseases, bronchitis, asthma, etc. were all caused by air pollution. The harmful fumes from vehicles are a major cause of air pollution.

The India-related data was calculated from the largest global database ever assembled using India-specific levels of baseline mortality and incidence of five leading causes of death in India and was released at a workshop organised by ICMR and CSE.

The 2010, GBD was produced by a rigorous scientific process involving 150 global experts led by the Institute of Health Metrics and Evaluation along with WHO and Harvard University.

SubQuestion No : 20

Q.20 Which of the following statements is false according to the passage?

- Ans**
1. Two-thirds of the rising disease graphs worldwide are found in South Asia
 2. The head of oncology department confirmed getting thousands of new cases of lung cancer every year
 3. The 2010 GBD was produced by a rigorous scientific process involving 150 global experts
 4. Air pollution has jumped to number five spot amongst the top killers in India

Question ID : 54592769367

Section : General Hindi

Q.1 दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए।

'वह नाटक जिसमें गीत अधिक हों'

- Ans**
1. चाटुकार
 2. गरिष्ठ
 3. गीतरूपक
 4. गीतछवि

Question ID : 54592769372

Q.2 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए।

- Ans**
1. अदरक
 2. दाल
 3. मिर्च
 4. रसा

Question ID : 54592769378

Q.3 वाक्य प्रकार का चयन कीजिए।

'अल्का गा रही थी।'

- Ans**
1. सामान्य वर्तमान
 2. आसन्न भविष्यत

3. अपूर्ण भूत
4. सामान्य भूत

Question ID : 54592769376

Q.4 'मात्रानंद' में कौन-सी संधि है?

- Ans
1. दीर्घ संधि
 2. यण संधि
 3. विसर्ग संधि
 4. अयादि संधि

Question ID : 54592769369

Q.5 किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही किया गया है?

- Ans
1. राधिका बहुत खुश हुई "वह माँ बननेवाली थी न"
 2. दोनों साथ साथ खेलते, खाते,पढ़ते, और टहलते है।
 3. राजा-दशरथ, के चार पुत्र थे।
 4. दोनों साथ-साथ खेलते, खाते,पढ़ते और टहलते है।

Question ID : 54592769380

Q.6 वर्षों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में विशेषण क्या है?

- Ans
1. लौटा है
 2. प्रवासी
 3. पति
 4. वर्षों

Question ID : 54592769370

Q.7 विदेशज शब्द का चयन कीजिए।

- Ans
1. कम्पनी
 2. औजार
 3. ठुमरी
 4. काया

Question ID : 54592769368

Q.8 वाक्य प्रकार का चयन कीजिए।

'अल्प ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने'।

- Ans
1. विधिवाचक वाक्य
 2. सरल वाक्य
 3. संयुक्त वाक्य
 4. मिश्र वाक्य

Question ID : 54592769377

Q.9 शब्द-युग्म के सही अर्थ-भेद का चयन कीजिए।

'मानक-मानिक'

- Ans
1. कीमत-मूर्ख
 2. स्तर- लाल रंग का रत्न
 3. लाल रंग का रत्न-स्तर
 4. मूल्य- मुरली

Question ID : 54592769374

Q.10 किस चिन्ह का प्रयोग आवेदन-पत्र या प्रार्थना पत्र में 'विषय' एवं 'द्वारा' के बाद होता है?

- Ans
1. लाघव चिन्ह
 2. अवतरण चिन्ह
 3. प्रश्नवाचक चिन्ह
 4. विवरण चिन्ह

Question ID : 54592769382

Q.11 लोकोक्ति 'तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी सोर' का अर्थ है:

- Ans
1. जिसको मालिक चाहे वह बुरा भी अच्छा
 2. अपनी औकात देखकर ही खर्च करो
 3. चादर के अनुसार ही पैर फैलाना
 4. शुक है कि जान बच गई

Question ID : 54592769381

Q.12 असंगत (बेमेल शब्द) का चयन कीजिए।

- Ans
1. चमकीले
 2. सुनहरे
 3. कनक
 4. रूपहले

Question ID : 54592769375

Q.13 'इतिश्री' का विलोम शब्द है:

- Ans
1. उधर
 2. श्री गणेश
 3. वन्दना
 4. अन्त

Question ID : 54592769371

Q.14 'परतन्त्र' का पर्यायवाची शब्द है:

- Ans
1. विनय
 2. पग
 3. पराधीन
 4. तत्काल

Question ID : 54592769373

Q.15 मुहावरा 'लहू पीकर रह जाना' का अर्थ है:

- Ans
1. होश-हवास न होना
 2. गुस्सा बर्दाशत करना
 3. बर्बाद करना
 4. रूढ़िवादी होना

Question ID : 54592769379

Comprehension:

दिए गए गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या केवल गाँवों में निवास करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन के कारण एक नहीं अनेक हैं। ये एक समान नहीं हैं, अपितु विविध हैं। कहीं तो भूमि अन्नोत्पादक योग्य नहीं है और कहीं ऊबड़ खाबड़ एवं बहुत कठोर है। इस प्रकार ग्रामीणों की दुर्दशा और कष्टपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखकर ही 'जवाहर रोजगार योजना' को अप्रैल 1989 को तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में इसे लागू करने के लिए घोषित कर दिया था।

श्री गाँधी का यही मुख्य विचार रहा कि इस योजना का लाभ उन ग्रामीणों को प्राप्त होगा, जो हर प्रकार से शोषित, पीड़ित, सताए गए दीन दुखी और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। श्री गाँधी ने इस योजना को लागू करने के सन्दर्भ में यह घोषणा की थी 'इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए 2100 करोड़ रुपये की धनराशि दी जायेगी। प्रत्येक गाँव का पंचायत तक पहुँचना ही मुख्य लक्ष्य है। भारत के ग्रामवासियों के समस्त अभावों को दूर करना इस योजना का सर्वप्रधान लक्ष्य और प्रयास होगा। निर्धनता और महामारी को दूर करने का महत्वपूर्ण प्रयास यह योजना करेगी। इस योजना के अन्तर्गत रोजगारों की प्राप्ति के भाग का 30 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस योजना के अन्तर्गत यह भी एक प्रावधान है कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को उसके निवास स्थान के निकट एक वर्ष में 50 से 100 दिन तक रोजगार दिया जायेगा। अपने गाँवों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए तीन से चार हजार व्यक्तियों वाली प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष अस्सी हजार से एक लाख रुपये की धनराशि मिलेगी बशर्ते कि उसका गाँव दूर स्थित एक पिछड़े हुए क्षेत्र में हो। इस योजना की अपेक्षित धनराशि का अस्सी प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी।

SubQuestion No : 16

Q.16 'जवाहर रोजगार योजना' के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है?

- Ans
1. भारत के ग्रामवासियों के समस्त अभावों को दूर करना इस योजना का सर्वप्रधान लक्ष्य और प्रयास होगा।
 2. प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को उसके निवास स्थान के निकट तीन वर्ष में 50 से 100 दिन तक रोजगार दिया जायेगा।
 3. भारत की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या केवल गाँवों में निवास करती है।
 4. इस योजना के अन्तर्गत रोजगारों की प्राप्ति के भाग का 30 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

Question ID : 54592769388

Comprehension:

दिए गए गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या केवल गाँवों में निवास करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन के कारण एक नहीं अनेक हैं। ये एक समान नहीं हैं, अपितु विविध हैं। कहीं तो भूमि अन्नोत्पादक योग्य नहीं है और कहीं ऊबड़ खाबड़ एवं बहुत कठोर है। इस प्रकार ग्रामीणों की दुर्दशा और कष्टपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखकर ही 'जवाहर रोजगार योजना' को अप्रैल 1989 को तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में इसे लागू करने के लिए घोषित कर दिया था।

श्री गाँधी का यही मुख्य विचार रहा कि इस योजना का लाभ उन ग्रामीणों को प्राप्त होगा, जो हर प्रकार से शोषित, पीड़ित, सताए गए दीन दुखी और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। श्री गाँधी ने इस योजना को लागू करने के सन्दर्भ में यह घोषणा की थी 'इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए 2100 करोड़ रुपये की धनराशि दी जायेगी। प्रत्येक गाँव का पंचायत तक पहुँचना ही मुख्य लक्ष्य है। भारत के ग्रामवासियों के समस्त अभावों को दूर करना इस योजना का सर्वप्रधान लक्ष्य और प्रयास होगा। निर्धनता और महामारी को दूर करने का महत्वपूर्ण प्रयास यह योजना करेगी। इस योजना के अन्तर्गत रोजगारों की प्राप्ति के भाग का 30 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस योजना के अन्तर्गत यह भी एक प्रावधान है कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को उसके निवास स्थान के निकट एक वर्ष में 50 से 100 दिन तक रोजगार दिया जायेगा। अपने गाँवों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए तीन से चार हजार व्यक्तियों वाली प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष अस्सी हजार से एक लाख रुपये की धनराशि मिलेगी बशर्ते कि उसका गाँव दूर स्थित एक पिछड़े हुए क्षेत्र में हो। इस योजना की अपेक्षित धनराशि का अस्सी प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी।

SubQuestion No : 17

Q.17 प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने 'जवाहर रोजगार योजना' को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए कितने करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रावधान किया था?

- Ans
1. 3100 करोड़ रुपये
 2. 1100 करोड़ रुपये
 3. 2100 करोड़ रुपये
 4. 2200 करोड़ रुपये

Question ID : 54592769387

Comprehension:

दिए गए गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या केवल गाँवों में निवास करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन के कारण एक नहीं अनेक हैं। ये एक समान नहीं हैं, अपितु विविध हैं। कहीं तो भूमि अन्नोत्पादक योग्य नहीं है और कहीं ऊबड़ खाबड़ एवं बहुत कठोर है। इस प्रकार ग्रामीणों की दुर्दशा और कष्टपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखकर ही 'जवाहर रोजगार योजना' को अप्रैल 1989 को तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में इसे लागू करने के लिए घोषित कर

दिया था।

श्री गाँधी का यही मुख्य विचार रहा कि इस योजना का लाभ उन ग्रामीणों को प्राप्त होगा, जो हर प्रकार से शोषित, पीड़ित, सताए गए दीन दुखी और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। श्री गाँधी ने इस योजना को लागू करने के सन्दर्भ में यह घोषणा की थी 'इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए 2100 करोड़ रुपये की धनराशि दी जायेगी। प्रत्येक गाँव का पंचायत तक पहुँचना ही मुख्य लक्ष्य है। भारत के ग्रामवासियों के समस्त अभावों को दूर करना इस योजना का सर्वप्रधान लक्ष्य और प्रयास होगा। निर्धनता और महामारी को दूर करने का महत्वपूर्ण प्रयास यह योजना करेगी। इस योजना के अन्तर्गत रोजगारों की प्राप्ति के भाग का 30 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस योजना के अन्तर्गत यह भी एक प्रावधान है कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को उसके निवास स्थान के निकट एक वर्ष में 50 से 100 दिन तक रोजगार दिया जायेगा। अपने गाँवों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए तीन से चार हजार व्यक्तियों वाली प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष अस्सी हजार से एक लाख रुपये की धनराशि मिलेगी बशर्ते कि उसका गाँव दूर स्थित एक पिछड़े हुए क्षेत्र में हो। इस योजना की अपेक्षित धनराशि का अस्सी प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी।

SubQuestion No : 18

Q.18 उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है:

- Ans**
1. कृषि देश की प्रधानता
 2. महिलाओं को आरक्षण
 3. जवाहर रोजगार योजना
 4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना

Question ID : 54592769385

Comprehension:

दिए गए गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या केवल गाँवों में निवास करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन के कारण एक नहीं अनेक हैं। ये एक समान नहीं हैं, अपितु विविध हैं। कहीं तो भूमि अन्नोत्पादक योग्य नहीं है और कहीं ऊबड़ खाबड़ एवं बहुत कठोर है। इस प्रकार ग्रामीणों की दुर्दशा और कष्टपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखकर ही 'जवाहर रोजगार योजना' को अप्रैल 1989 को तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में इसे लागू करने के लिए घोषित कर दिया था।

श्री गाँधी का यही मुख्य विचार रहा कि इस योजना का लाभ उन ग्रामीणों को प्राप्त होगा, जो हर प्रकार से शोषित, पीड़ित, सताए गए दीन दुखी और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। श्री गाँधी ने इस योजना को लागू करने के सन्दर्भ में यह घोषणा की थी 'इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए 2100 करोड़ रुपये की धनराशि दी जायेगी। प्रत्येक गाँव का पंचायत तक पहुँचना ही मुख्य लक्ष्य है। भारत के ग्रामवासियों के समस्त अभावों को दूर करना इस योजना का सर्वप्रधान लक्ष्य और प्रयास होगा। निर्धनता और महामारी को दूर करने का महत्वपूर्ण प्रयास यह योजना करेगी। इस योजना के अन्तर्गत रोजगारों की प्राप्ति के भाग का 30 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस योजना के अन्तर्गत यह भी एक प्रावधान है कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को उसके निवास स्थान के निकट एक वर्ष में 50 से 100 दिन तक रोजगार दिया जायेगा। अपने गाँवों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए तीन से चार हजार व्यक्तियों वाली प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष अस्सी हजार से एक लाख रुपये की धनराशि मिलेगी बशर्ते कि उसका गाँव दूर स्थित एक पिछड़े हुए क्षेत्र में हो। इस योजना की अपेक्षित धनराशि का अस्सी प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी।

SubQuestion No : 19

Q.19 उपरोक्त गद्यांश के अनुसार 'जवाहर रोजगार योजना' की अपेक्षित धनराशि का कितना प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी।

- Ans**
1. अस्सी प्रतिशत
 2. सत्तर प्रतिशत
 3. बीस प्रतिशत
 4. पचास प्रतिशत

Question ID : 54592769386

Comprehension:

दिए गए गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या केवल गाँवों में निवास करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन के कारण एक नहीं अनेक हैं। ये एक समान नहीं हैं, अपितु विविध हैं। कहीं तो भूमि अन्नोत्पादक योग्य नहीं है और कहीं ऊबड़ खाबड़ एवं बहुत कठोर है। इस प्रकार ग्रामीणों की दुर्दशा और कष्टपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखकर ही 'जवाहर रोजगार योजना' को अप्रैल 1989 को तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में इसे लागू करने के लिए घोषित कर दिया था।

श्री गाँधी का यही मुख्य विचार रहा कि इस योजना का लाभ उन ग्रामीणों को प्राप्त होगा, जो हर प्रकार से शोषित, पीड़ित, सताए गए दीन दुखी और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। श्री गाँधी ने इस योजना को लागू करने के सन्दर्भ में यह घोषणा की थी 'इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए 2100 करोड़ रुपये की धनराशि दी जायेगी। प्रत्येक गाँव का पंचायत तक पहुँचना ही मुख्य लक्ष्य है। भारत के ग्रामवासियों के समस्त अभावों को दूर करना इस योजना का सर्वप्रधान लक्ष्य और प्रयास होगा। निर्धनता और महामारी को दूर करने का महत्वपूर्ण प्रयास यह योजना करेगी।

इस योजना के अन्तर्गत रोजगारों की प्राप्ति के भाग का 30 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस योजना के अन्तर्गत यह भी एक प्रावधान है कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को उसके निवास स्थान के निकट एक वर्ष में 50 से 100 दिन तक रोजगार दिया जायेगा। अपने गाँवों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए तीन से चार हजार व्यक्तियों वाली प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष अस्सी हजार से एक लाख रूपये की धनराशि मिलेगी बशर्ते कि उसका गाँव दूर स्थित एक पिछड़े हुए क्षेत्र में हो। इस योजना की अपेक्षित धनराशि का अस्सी प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी।

SubQuestion No : 20

Q.20 उपरोक्त गद्यांश के अनुसार 'जवाहर रोजगार योजना' को किस वर्ष में तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने घोषित किया था?

- Ans**
1. मई 1989
 2. जूलाई 1989
 3. अप्रैल 1989
 4. अप्रैल 1998

Question ID : 54592769384

Section : Discipline1

Q.1 According to the theory of probability, small errors tend to be more frequent than the large ones. This means they are more _____.

- Ans**
1. probable
 2. negative
 3. positive
 4. improbable

Question ID : 54592769396

Q.2 One sq.metre is equal to _____ sq.inches.

- Ans**
1. 1550
 2. 1250
 3. 1000
 4. 1750

Question ID : 54592769393

Q.3 According to British units one mile is equal to _____ furlongs.

- Ans**
1. 8
 2. 4
 3. 2
 4. 6

Question ID : 54592769391

Q.4 In angular measurement of the Centesimal system 2, circumference is equal to _____.

- Ans**
1. 600 g
 2. 800 g
 3. 200 g
 4. 400 g

Question ID : 54592769408

Q.5 According to the code of signals for ranging, both arms extended forward horizontally and the hands depressed briskly indicates _____.

- Ans**
1. incorrect
 2. fix the rod

3. plumb the rod upwards

4. correct

Question ID : 54592769401

Q.6 One mile is equal to how many Gunter's chains?

Ans 1. 80

2. 40

3. 20

4. 60

Question ID : 54592769398

Q.7 Which of the following chains is mainly used for measuring fields in cadastral survey?

Ans 1. Surveyor's chain

2. Revenue chain

3. Gunter's chain

4. Engineer's chain

Question ID : 54592769399

Q.8 In chaining on uneven ground, if h is the difference in level and l is the length of the slope, then horizontal distance D can be found by ____.

Ans 1. $D = \sqrt{l^2 - h^2}$

2. $D = l^2 - h^2$

3. $D = \sqrt{h^2 - l^2}$

4. $D = h^2 + l^2$

Question ID : 54592769404

Q.9 An error in which the maximum allowable limit that a measurement may vary from the true value is called ____.

Ans 1. maximum error

2. cumulative error

3. permissible error

4. mistake

Question ID : 54592769397

Q.10 According to the code of signals for ranging, left arm extended signal indicates ____.

Ans 1. plumb the rod to the left

2. continue to move to the left

3. move considerably to the left

4. move slowly to the left

Question ID : 54592769400

Q.11 If the whole circle bearing is between 0° and 90° , (reduced bearing) $RB = WCB - 180^\circ$, then the quadrant will be:

Ans 1. SE

2. SW

3. NE

4. NW

Question ID : 54592769407

Q.12 Which of the following is NOT a type of meridian?

- Ans
1. Magnetic meridian
 2. True meridian
 3. Arbitrary meridian
 4. Angular meridian

Question ID : 54592769406

Q.13 According to metric units 10 decimetres is equal to _____.

- Ans
1. 1 m
 2. 0.1 m
 3. 100 m
 4. 10 m

Question ID : 54592769392

Q.14 According to the Standard of Weights and Measurements Act (India), 1956 the unit of measurement of distance is _____ and _____.

- Ans
1. centimetres and millimetres
 2. metres and centimetres
 3. miles and kilometres
 4. kilometres and metres

Question ID : 54592769390

Q.15 In chaining on uneven or sloping ground, direct method is also called method of _____.

- Ans
1. chaining
 2. sliding
 3. stripping
 4. stepping

Question ID : 54592769403

Q.16 The earth's polar axis is shorter than the equatorial axis by _____.

- Ans
1. 42.95 km
 2. 52.95 km
 3. 45.20 km
 4. 55.20 km

Question ID : 54592769389

Q.17 Which of the following is NOT a type of scale?

- Ans
1. Scale of chains
 2. Plain scale
 3. Vernier scale
 4. Scale of chords

Question ID : 54592769394

Q.18 Cumulative errors are also called _____.

- Ans
1. accidental errors
 2. compensating errors

3. mistakes
4. systematic errors

Question ID : 54592769395

Q.19 The more experienced of the chainmen remains at the zero end or rear end of the chain and is called the _____.

- Ans**
1. handler
 2. follower
 3. leader
 4. fixer

Question ID : 54592769402

Q.20 If L is the measured length of the line, c is correction per tape length, l is the designated length of the tape, then correction for absolute length Ca of the tape is calculated by _____.

- Ans**
1. $Ca = (L - c)/l$
 2. $Ca = (c + l)/L$
 3. $Ca = (c * L)/l$
 4. $Ca = (c - l)/L$

Question ID : 54592769405

Section : Discipline2

Q.1 Particle Detention time in detention tank is the ratio of

- Ans**
1. Volume by flow rate
 2. Flow rate by Density
 3. Density by flow rate
 4. Volume by Density

Question ID : 54592769421

Q.2 Which of the following instruments is used for the measurement of a slope?

- Ans**
1. Fennel's clinometre
 2. Foot-rule clinometre
 3. Pantograph
 4. Ceylon ghat tracer

Question ID : 54592769413

Q.3 While making Invar Tape what is the percentage of nickel used?

- Ans**
1. 18 percent
 2. 54 percent
 3. 72 percent
 4. 36 percent

Question ID : 54592769414

Q.4 The unit of stress is _____.

- Ans**
1. m/s^2
 2. m/s
 3. N/m^2

4. N/m

Question ID : 54592769424

Q.5 The erroneous length of a chain or tape is _____.

- Ans
1. compensating -
 2. cumulative -
 3. compensating +
 4. cumulative + or -

Question ID : 54592769409

Q.6 The product of pressure intensity and cross sectional area of a flowing fluid is called _____.

- Ans
1. pressure force
 2. gravity force
 3. viscous force
 4. elastic force

Question ID : 54592769428

Q.7 Electro-magnetic distance measurement enables accuracies up to _____.

- Ans
1. 1 in 30^5
 2. 1 in 40^5
 3. 1 in 10^5
 4. 1 in 20^5

Question ID : 54592769411

Q.8 1Newton (N) is equal to _____.

- Ans
1. 1 kg m/s^2
 2. 10 kg m/s^2
 3. 100 kg m/s^2
 4. 0.1 kg m/s^2

Question ID : 54592769423

Q.9 Axial force in a member is considered positive when it produces ____ in a member.

- Ans
1. stress
 2. strain
 3. tension
 4. pressure

Question ID : 54592769425

Q.10 In errors due to incorrect chain, correction to area is done by using the formula _____.

- Ans
1. $A = (1 - 2e)A'$
 2. $A = (1 + 2e)A'$
 3. $A = (2e - 1)A'$
 4. $A' = (1 + 4e)A$

Question ID : 54592769416

Q.11 5 day BOD is taken at a temperature of

- Ans
1. 10°C

2. 15 °C

3. 20 °C

4. 0 °C

Question ID : 54592769420

Q.12 Which gas is the basic cause of Crown Corrosion

Ans 1. CH₄

2. H₂S

3. NH₃

4. CO₂

Question ID : 54592769419

Q.13 Electro-magnetic distance measurement ranges up to _____.

Ans 1. 100 km

2. 25 km

3. 10 km

4. 50 km

Question ID : 54592769412

Q.14 The shape factor for circular section is _____.

Ans 1. 1.2

2. 1.5

3. 1.7

4. 1.8

Question ID : 54592769422

Q.15 The probable error of a single observation is calculated from the equation _____.

Ans 1. $Es = \pm 0.6745 \sqrt{\sum V^2} / n-1$

2. $Es = \pm 0.943 \sqrt{\sum V^2} / n-1$

3. $Es = \pm 0.6745 \sqrt{\sum V^2} / r-1$

4. $Es = \pm 0.729 \sqrt{\sum r^2} / n-1$

Question ID : 54592769415

Q.16 What is used to empty a channel when it is NOT provided with any sluice?

Ans 1. Manometer

2. Hydraulic jacks

3. Syphon

4. Notches

Question ID : 54592769427

Q.17 If the Reynold number is less than 2000 in a pipe, the flow is a _____.

Ans 1. compressed flow

2. turbulent flow

3. laminar flow

4. mechanical flow

Question ID : 54592769426

Q.18 Vernier theodolites use verniers which have a least count of _____ to _____.

- Ans
1. 40" to 50"
 2. 10" to 20"
 3. 20" to 30"
 4. 30" to 40"

Question ID : 54592769410

Q.19 In Self cleansing velocity

- Ans
1. Solid particles will float on surface
 2. Solid particles get settled at the bottom
 3. Solid particles will remain in suspension
 4. Solid along with water move at very high speed

Question ID : 54592769418

Q.20 The ratio of the load causing collapse to the working load is called _____.

- Ans
1. load factor
 2. moment factor
 3. shape factor
 4. collapsing factor

Question ID : 54592769417

Section : Discipline3

Q.1 From the following, a typical cross section of which class highways has a carriage width of 3 m?

- Ans
1. Urban residential streets
 2. Typical 2 lane state highways
 3. Urban arterial streets
 4. Typical village roads

Question ID : 54592769447

Q.2 At what velocity of the fluid is the weight of the body equal to the drag force plus the buoyant force?

- Ans
1. Tangential velocity
 2. Constant velocity
 3. Initial velocity
 4. Terminal velocity

Question ID : 54592769430

Q.3 The cylinder strength is found to be invariably _____ the cube strength for the same quality of concrete.

- Ans
1. same as
 2. lower than
 3. zero
 4. higher than

Question ID : 54592769436

Q.4 The strength of material below which NOT more than 5 percent of the test results are

expected to fail is called _____.

- Ans
1. mean target strength
 2. characteristic strength
 3. compressive strength
 4. nominal strength

Question ID : 54592769435

Q.5 Due to which effect does concrete tend to expand laterally and longitudinal cracks become visible when the lateral strain exceeds the limiting tensile strain of concrete?

- Ans
1. Thermal effect
 2. Darcy's effect
 3. Magnus effect
 4. Poisson effect

Question ID : 54592769437

Q.6 What is back water curve?

- Ans
1. It is the profile of the falling water on the downstream side of the obstruction
 2. It is the profile of the rising water on the upstream side of the obstruction
 3. It is the profile of the falling water on the upstream side of the obstruction
 4. It is the profile of the rising water on the downstream side of the obstruction

Question ID : 54592769433

Q.7 If the Mach number is equal to 1, the flow is said to be _____.

- Ans
1. sonic flow
 2. sub-sonic flow
 3. super-sonic flow
 4. real flow

Question ID : 54592769431

Q.8 Which vehicle survey is carried out with the help of the police?

- Ans
1. Roadside interview survey
 2. Postcard questionnaire survey
 3. Registration number plate survey
 4. Home interview survey

Question ID : 54592769442

Q.9 The ultimate moment capacity of the slab should NOT be exceeded at any point on the slab. This condition is known as _____.

- Ans
1. mechanism condition
 2. equilibrium condition
 3. longitudinal condition
 4. yield condition

Question ID : 54592769440

Q.10 In a liquid, when Mach number is greater than 1, there is no effect of disturbance in the region outside the Mach zone. This region outside the Mach zone is called _____.

- Ans
1. zone of action
 2. zone of silence
 3. zone of resilience

4. zone of reaction

Question ID : 54592769432

Q.11 Which force can be counteracted by providing super elevation of roads?

- Ans**
1. Centrifugal force
 2. Gravitational force
 3. Centripetal force
 4. Frictional force

Question ID : 54592769444

Q.12 Which of these is INCORRECT in case of channelised intersection of roads?

- Ans**
1. Very cheap to construct
 2. Separates conflicts
 3. Controls speed
 4. Protects pedestrians

Question ID : 54592769448

Q.13 The process of reaction of carbon dioxide in the atmosphere with alkalis in the cement paste is called _____.

- Ans**
1. decarbonation
 2. deoxygenation
 3. oxygenation
 4. carbonation

Question ID : 54592769438

Q.14 What is the intermediate width followed in India for less important roads with two lanes?

- Ans**
1. 4.5 m
 2. 6.0 m
 3. 5.0 m
 4. 5.5 m

Question ID : 54592769445

Q.15 Which method assumes that the structural material behaves in a linearly elastic manner?

- Ans**
1. Ultimate load method
 2. Limit state method
 3. Working stress method
 4. None of the given options

Question ID : 54592769439

Q.16 When will cracking of concrete occur?

- Ans**
1. When the tensile strength of concrete is exceeded
 2. When the shear strength of concrete is exceeded
 3. When the shear strength of concrete is reduced
 4. When the tensile strength of concrete is reduced

Question ID : 54592769441

Q.17 The phenomenon of the lift force produced by a rotating cylinder in a uniform flow is known

as _____.

- Ans
1. Dielectric effect
 2. Magnus effect
 3. Reynolds effect
 4. Fluid effect

Question ID : 54592769429

Q.18 The code book used for the storage of liquids for concrete structures is _____.

- Ans
1. IS 3370 : 1965
 2. IS 1893 : 2002
 3. IS 456 : 2000
 4. IS 13920 : 1993

Question ID : 54592769434

Q.19 Which of these is NOT a function of curbs?

- Ans
1. To delineate pavement edge
 2. To present a more finished appearance
 3. To control drainage
 4. To provide space for walking

Question ID : 54592769446

Q.20 What is the width of arterial roads in case of Bombay Plan?

- Ans
1. Single lane width
 2. Three lane width
 3. Four lane width
 4. Double lane width

Question ID : 54592769443

Section : Discipline4

Q.1 Which of these does NOT affect the suction capacity of soil?

- Ans
1. Pressure of water
 2. Dissolved salts
 3. Angle of contact
 4. Temperature

Question ID : 54592769458

Q.2 Soil deposited by winds are termed as _____.

- Ans
1. Aeolian soil
 2. areola soil
 3. aerial soil
 4. wind soil

Question ID : 54592769461

Q.3 Which of this is also called as water plasticity ratio?

- Ans
1. Consistency index
 2. Liquidity index

- 3. Flow index
- 4. Plasticity index

Question ID : 54592769455

Q.4 Which of the following shaped particles of aggregates have the highest shear strength?

- Ans**
- 1. Sub angular
 - 2. Angular
 - 3. Well rounded
 - 4. Rounded

Question ID : 54592769454

Q.5 Which type of soil particle structures is exhibited in gravel when it is deposited due to gravitational forces?

- Ans**
- 1. Flocculated structure
 - 2. Honey comb structure
 - 3. Dispersed structure
 - 4. Single grained structure

Question ID : 54592769457

Q.6 The Flakiness index and Elongation index test is NOT applicable to aggregate sizes smaller than _____.

- Ans**
- 1. 12 mm
 - 2. 4.75 mm
 - 3. 10 mm
 - 4. 6.3 mm

Question ID : 54592769468

Q.7 Which of the following is an igneous rock?

- Ans**
- 1. Kankar
 - 2. Limestone
 - 3. Quartzite
 - 4. Granite

Question ID : 54592769450

Q.8 Which soil type has sensitivity less than 1?

- Ans**
- 1. Little sensitive soil
 - 2. Extra sensitive soil
 - 3. Insensitive soil
 - 4. Sensitive soil

Question ID : 54592769456

Q.9 In which of these chemical decomposition methods of formation of soil does water get dissociated into H⁺ and OH⁻ ions?

- Ans**
- 1. Hydrolysis
 - 2. Oxidation
 - 3. Hydration
 - 4. Solution

Question ID : 54592769460

Q.10 Which is the most commonly used method of construction of flow net?

- Ans**
1. Graphical method
 2. Soil models
 3. Solution of Laplace's equation
 4. Plastic models

Question ID : 54592769459

Q.11 Which soil type has specific gravity in the range 2.68 - 2.80?

- Ans**
1. Organic soil
 2. Silty sand
 3. Inorganic clays
 4. Gravel

Question ID : 54592769464

Q.12 To what diameter of rolls is soil rolled in order to determine its plastic limit?

- Ans**
1. 2 mm
 2. 4 mm
 3. 5 mm
 4. 3 mm

Question ID : 54592769466

Q.13 Which of these is an index property of soil?

- Ans**
1. Compressibility
 2. Permeability
 3. Relative density
 4. Shear strength

Question ID : 54592769452

Q.14 In which of these soil deposits does alternate layers of sand, silt and clay exist?

- Ans**
1. Alluvial soil
 2. Marine deposits
 3. Laterite soil
 4. Black cotton soil

Question ID : 54592769462

Q.15 What is the other name for a roundabout intersection of roads?

- Ans**
1. Rotary intersection
 2. Scissors intersection
 3. T-intersection
 4. Y-intersection

Question ID : 54592769449

Q.16 In cement concrete, a substitution of cement with 30 percent fly ash may result in reduction of heat of hydration by _____.

- Ans**
1. 25 - 35 percent
 2. 40 - 55 percent

3. 30 - 45 percent

4. 50 - 60 percent

Question ID : 54592769467

Q.17 Which of these is NOT INCORRECT in case of particle size distribution curve of soil mass?

- Ans**
1. It helps to determine soil susceptibility to frost action
 2. It is used in soil stabilisation
 3. It doesn't tell anything about soil compressibility
 4. It is used in classification of coarse grained soils

Question ID : 54592769453

Q.18 What is the minimum height of the bottom of a pavement followed while drawing the longitudinal profile of embankment in order to find its height?

- Ans**
1. 0.5 m
 2. 0.6 m
 3. 0.7 m
 4. 0.4 m

Question ID : 54592769451

Q.19 What is the diameter of the hole in the cap used for pycnometer method of determining water content of soil?

- Ans**
1. 3 mm
 2. 4 mm
 3. 6 mm
 4. 5 mm

Question ID : 54592769465

Q.20 In which type of soils are soil particles cemented by calcium carbonate?

- Ans**
1. Bentonite
 2. Caliche
 3. Black cotton soil
 4. Fills

Question ID : 54592769463

Section : Discipline5

Q.1 In a staircase, a large baluster or post used to anchor the handrail is known as ____.

- Ans**
1. nosing
 2. finial
 3. newel
 4. wall string

Question ID : 54592769480

Q.2 If p is the standard consistency of cement, the amount of water used to find the initial setting time of cement is ____.

- Ans**
1. 0.80 p
 2. 0.85 p
 3. 0.75 p

4. 0.70 p

Question ID : 54592769475

Q.3 The time period that elapses from the instant of its sowing to the instant of its harvesting is called _____.

- Ans**
1. base period
 2. crop period
 3. rotation period
 4. growth period

Question ID : 54592769484

Q.4 Le-Chatelier apparatus is used to find the _____.

- Ans**
1. permeability of cement
 2. consistency of cement
 3. setting time of cement
 4. soundness of cement

Question ID : 54592769478

Q.5 Which of the following effects of Fly Ash on cement concrete is INCORRECT?

- Ans**
1. Increases the heat of hydration of concrete
 2. Slightly improves the resistance to sulphate attack
 3. Reduces the amount of air entraining agents
 4. Reduces the permeability of concrete

Question ID : 54592769472

Q.6 What is the top diameter and bottom diameter of the frustum of the cone used for slump test to find the consistency of concrete?

- Ans**
1. 10 cm – 15 cm
 2. 20 cm – 30 cm
 3. 15 cm – 20 cm
 4. 10 cm – 20 cm

Question ID : 54592769470

Q.7 As per IS: 3495 (part I), what is the loading rate used to find the compressive strength of bricks?

- Ans**
1. 24 N/m² per minute
 2. 32 N/m² per minute
 3. 45 N/m² per minute
 4. 14 N/m² per minute

Question ID : 54592769471

Q.8 Schmidt's Rebound Hammer technique is used to measure _____.

- Ans**
1. tensile Strength
 2. shrinkage limit
 3. compressive strength
 4. surface hardness

Question ID : 54592769481

Q.9 Process of taking levels on each side of a main line at right angles to that line is called as _____.

- Ans
1. profile levelling
 2. reciprocal levelling
 3. differential levelling
 4. cross-section levelling

Question ID : 54592769483

Q.10 If S is the strength of concrete and x is the gel/space ratio, then according to Power's and Brownyard the relation between strength and gel/space ratio is _____.

- Ans
1. $S = 140/x^3$
 2. $S = 240 x^3$
 3. $S = 140 x^3$
 4. $S = 240/x^3$

Question ID : 54592769469

Q.11 Elongated aggregates are those whose length is _____.

- Ans
1. 1.6 times its mean dimension
 2. 0.4 times its mean dimension
 3. 1.2 times its mean dimension
 4. 1.8 times its mean dimension

Question ID : 54592769486

Q.12 A hydraulic jump is said to be a Steady Jump if its Froude number is _____.

- Ans
1. less than 1
 2. between 1 to 1.7
 3. between 2.5 to 4.5
 4. between 4.5 to 9

Question ID : 54592769482

Q.13 The amount of irrigation water required in order to meet the evapotranspiration needs of the crop during its full growth is called _____.

- Ans
1. consumptive use
 2. net irrigation requirement
 3. effective rainfall
 4. consumptive irrigation requirement

Question ID : 54592769485

Q.14 Which apparatus is used to find the softening point of bitumen?

- Ans
1. Briquette Mould
 2. Ring and Ball apparatus
 3. Furol viscometer
 4. Penetrometer

Question ID : 54592769476

Q.15 Why is soda used during the manufacture of glass?

- Ans
1. To accelerate the fusion of glass
 2. To increase its resistance to fire

3. To modify hardness of glass
4. To impart colour and shine

Question ID : 54592769473

Q.16 A joint provided in the length of a column is called _____.

- Ans**
1. lug angle
 2. batten
 3. lacing
 4. splice

Question ID : 54592769488

Q.17 Glass is an example of _____.

- Ans**
1. anhydride
 2. polymeric material
 3. ferrous material
 4. ceramic material

Question ID : 54592769474

Q.18 Briquette Mould is used for which of the following tests of bitumen?

- Ans**
1. Adhesion test
 2. Distillation test
 3. Flash and Fire point test
 4. Ductility test

Question ID : 54592769477

Q.19 The distance between the centre of two consecutive rivets measured along a row of rivets is known as _____.

- Ans**
1. eccentricity
 2. pitch
 3. gauge
 4. edge distance

Question ID : 54592769487

Q.20 The process of taking levels on each side of a main line at right angles to that line is called _____.

- Ans**
1. cross-section levelling
 2. differential levelling
 3. reciprocal levelling
 4. profile levelling

Question ID : 54592769479